

टेबल 11.1 : आरक्षित नकदी निधि (सीआरआर) अनुपात और ब्याज दरें 2007-08

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मास		अप्रैल 2007	मई 2007	जून 2007	जुलाई 2007	अगस्त 2007	सितंबर 2007
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ए.	आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) (1)	6.25	6.50	6.50	6.50	7.00	7.00
बी.	बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
सी.	मूल उधार दर (पीएलआर)	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25
डी.	जमा दर	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.60	7.50-9.60	8.00-9.50	8.00-9.50
ई.	मांग मुद्रा दर						
	ऋण (दिये गये)						
	(i) उच्च	15.00	8.25	9.50	1.50	8.40	9.50
	(ii) निम्न	4.00	1.95	0.30	0.10	2.50	2.75
	ऋण (लिए गये)						
	(i) उच्च	15.00	8.25	9.50	1.50	8.40	9.50
	(ii) निम्न	4.00	1.95	0.30	0.10	2.50	2.75

टिप्पणियां : 1. आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) महीने के अंतिम शुक्रवार को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोड़कर) के लिए लागू है
 2. मूल उधार दर (पीएलआर) पांच बड़े बैंकों से संबंधित है ।
 3. जमा दर बड़े बैंकों के एक वर्ष से अधिक की परिपक्वतावाली (मैच्युरिटीवाली) मीयादी जमा राशियों से संबंधित हैं ।
 4. मुख्य सहभागीयाँ द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल लेन-देन का 90-95 प्रतिशत आंकड़ों में शामिल है ।
 महीने के अंतिम शुक्रवार के उच्च / निम्न स्थिति ।

स्रोत : साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट, (डब्ल्यूएसएस) विभिन्न अंक ।

टेबल 11.1 : आरक्षित नकदी निधि (सीआरआर) अनुपात और ब्याज दरें 2007-08 (समाप्त)

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मास		अक्टूबर 2007	नवंबर 2007	दिसंबर 2007	जनवरी 2008	फरवरी 2008	मार्च 2008
		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ए.	आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) (1)	7.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
बी.	बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
सी.	मूल उधार दर (पीएलआर)	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.25-13.00	12.25-12.75
डी.	जमा दर	8.00-9.50	8.00-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00
ई.	मांग मुद्रा दर						
	ऋण (दिये गये)						
	(i) उच्च	6.20	8.10	8.55	8.40	9.00	9.00
	(ii) निम्न	3.75	4.00	6.00	4.50	3.50	4.00
	ऋण (लिए गये)						
	(i) उच्च	6.20	8.10	8.55	8.40	9.00	9.00
	(ii) निम्न	3.75	4.00	6.00	4.50	3.50	4.00

टिप्पणियां :

1. आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) महीने के अंतिम शुक्रवार को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोड़कर) के लिए लागू है
2. मूल उधार दर (पीएलआर) पांच बड़े बैंकों से संबंधित है ।
3. जमा दर बड़े बैंकों के एक वर्ष से अधिक की परिपक्वतावाली (मैच्युरिटीवाली) मीयादी जमा राशियों से संबंधित हैं ।
4. मुख्य सहभागीयाँ द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल लेन-देन का 90-95 प्रतिशत आंकड़ों में शामिल है ।

महीने के अंतिम शुक्रवार के उच्च / निम्न स्थिति ।

स्त्रोत : साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट, (डब्ल्यूएसएस) विभिन्न अंक ।